



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1934 (श0)
(सं0 पटना 19) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

11 अक्टूबर 2012

सं0 22/नि0सि0 (पट0) 3-12/2012/1107—पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, करबिगहिया, पटना के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग की बहुमूल्य सरकारी जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन को अतिक्रमित करते हुए उस पर बहुमंजिली इमारत (अर्पाटमेंट) निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। जालसाजी में मो0 इदरीश, आई0 डी0-2270 तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल नौबतपुर, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-13, सिंचाई भवन, पटना द्वारा दिनांक 9.8.96 को अपने हस्ताक्षर से एक रसीद काटी गई है जो वर्ष 1991-92 से लेकर 1998-99 तक के लिए है। अतएव सरकारी जमीन के अतिक्रमण में उनकी सक्रिय अन्तर्लिप्तता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिये मो0 इदरीश को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में मो0 इदरीश को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन की अवधि में मो0 इदरीश को नियमानुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. निलंबन की अवधि में मो0 इदरीश का मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है।
4. विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
श्याम कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 19-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>